

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/321

दिनांक - 07/10/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल दुधीचुआ में मोबाइल क्रशर का शुभारंभ

प्रतिदिन 3288 टन कोयला (-) 100 एमएम साइज पर क्रश किया जा सकेगा

अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण कोयला आपूर्ति करने हेतु नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी के दुधीचुआ क्षेत्र में गुरुवार को एक नए सेमी मोबाइल क्रशर का संचालन आरंभ हुआ। क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री एम. के. प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि इस मोबाइल क्रशर का शुभारंभ किया।

मोबाइल क्रशर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि दुधीचुआ क्षेत्र में सेमी मोबाइल क्रशर के लग जाने से क्षेत्र की कोयला प्रेषण क्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्र अब हर वर्ष 1.2 मिलियन टन अधिक कोयला प्रेषण कर सकेगा। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि मोबाइल क्रशर के आने से क्षेत्र के पास उपलब्ध कोयला स्टॉक भी समाप्त होगा।

यह मोबाइल क्रशर दुधीचुआ क्षेत्र के ईस्ट कोल स्टॉक के समीप लगाया गया है। इस मोबाइल क्रशर के माध्यम से अगले 3 वर्षों में लगभग 36 लाख (3.6 मिलियन टन) कोयले को क्रश किया जा सकेगा। इस तरह यह मोबाइल क्रशर प्रतिदिन 3288 टन कोयला (-) 100 एमएम साइज पर क्रश करेगा। साथ ही, क्रशड कोयले को दुधीचुआ वार्फवाल में पहुंचाकर उसे रेलवे वैगन में लोड भी किया जाएगा।

मोबाइल क्रशर के उद्घाटन के अवसर पर दुधीचुआ क्षेत्र के प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री बी. एन. सिंह, महाप्रबंधक (ई. एंड एम.) श्री पी. के. गोड़, स्टाफ अधिकारी (खनन) श्री पी. एस. सिंह, स्टाफ अधिकारी (उत्खनन) श्री एन. झा., स्टाफ अधिकारी (कर्मिक) श्री शफदर खान, खान प्रबंधक श्री कुमोद मिस्त्री और श्री एस. के. झा सहित बड़ी संख्या में दुधीचुआ क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारी एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

गौरतलब है कि दुधीचुआ क्षेत्र को वर्ष 2017-18 में 14.75 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं कोयला प्रेषण का लक्ष्य दिया गया है। क्षेत्र 6 अक्टूबर, 2017 तक 7.03 मिलियन टन कोयला कोयला उत्पादन कर चुका है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में किए गए कोयला उत्पादन से लगभग 19 प्रतिशत है। इसी प्रकार दुधीचुआ क्षेत्र वित्त वर्ष 2017-18 में 6 अक्टूबर, 2017 तक 6.17 मिलियन टन कोयला प्रेषण कर पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में किए गए कोयला प्रेषण के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज चुका है।

जनसंपर्क अधिकारी